



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 11] नई दिल्ली, मई 6—मई 12, 2018, शनिवार/वैशाख 16—वैशाख 22, 1940

No. 11] NEW DELHI, MAY 6—MAY 12, 2018, SATURDAY/VAISAKHA 16—VAISAKHA 22, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं  
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2018

आ.अ. 22.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के परामर्श से एतद्वारा, श्री एस.सी.एल. दास, आई.ए.एस. के स्थान पर श्री विक्रम देव दत्त, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.टी.-1993), को उनके कार्य भार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री विक्रम देव दत्त, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन सभी पद भार या किसी कार्य के पद भारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पद भार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री विक्रम देव दत्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के रूप में कार्य करते हुए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको संघ राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार के सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

[सं. 154/ए एण्ड एन/2018—पी. प्रशा.]

आदेश से,

बी. सी. पात्रा, सचिव

**SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA**New Delhi, the 10<sup>th</sup> April, 2018

**O.N. 22.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Administration of Union Territory of Andaman and Nicobar Islands hereby nominates Shri Vikram Dev Dutt, IAS (AGMUT:1993) as the Chief Electoral Officer for the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Shri S.C.L. Das, IAS.

2. Shri Vikram Dev Dutt shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Administration of Union Territory of Andaman and Nicobar Islands, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Vikram Dev Dutt while functioning as the Chief Electoral Officer, Andaman and Nicobar Islands shall not hold any additional charge whatsoever under the Administration of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands except that he should be designated Secretary to the Administration of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands in-charge of Election Department in the Union Territory Secretariat.

[No. 154/A&amp;N/2018-P. Admn.]

By Order,

B. C. PATRA, Secy.

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2018

**आ.अ. 23.**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग मणिपुर राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा, श्री विवेक कुमार देवांगन, आई.ए.एस. के स्थान पर श्री प्रशान्त कुमार सिंह, आई. ए. एस. (एम एन 1993) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए मणिपुर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री प्रशान्त कुमार सिंह, मणिपुर सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री प्रशान्त कुमार सिंह, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मणिपुर के रूप में कार्य करते हुए मणिपुर सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार के प्रधान सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

[सं. 154/एमआर/2017-पी. प्रशा.]

आदेश से,

बी.सी. पात्रा, सचिव

New Delhi, the 16<sup>th</sup> April, 2018

**O. N. 23.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Manipur hereby nominates Shri Prashant Kumar Singh, IAS (MN:1993) as the Chief Electoral Officer for the State of Manipur with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Shri Vivek Kumar Dewangan, IAS.

2. Shri Prashant Kumar Singh shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Manipur, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Prashant Kumar Singh while functioning as the Chief Electoral Officer, Manipur shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Manipur except that he should be designated Principal Secretary to the Government in-charge of Election Department in the State Secretariat.

[No. 154/MR/2017-P. Admn.]

By Order,

B. C. PATRA, Secy.

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2018

**आ. अ. 24.**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 के 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग सिक्किम राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा श्री तेनजिंग गेलेक, आई.ए.एस. के स्थान पर श्री रविंद्र तेलंग, आई.ए.एस. (एस. के.: आर.आर : 1995) को उनके कार्य भार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए सिक्किम राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री रविंद्र तेलंग सिक्किम सरकार के अधीन सभी पद भार या किसी कार्य के पद भारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे जो कि वह ऐसा पद भार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री रविंद्र तेलंग मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिक्किम के रूप में कार्य करते हुए सिक्किम सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

[सं. 154/एसके/2018-पी. प्रशा.]

आदेभा से,

बी. सी. पात्रा, सचिव

New Delhi, the 16<sup>th</sup> April, 2018

**O. N. 24.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Sikkim hereby nominates Sh. Ravindra Telang, IAS (RR:SK:1995) as the Chief Electoral Officer for the State of Sikkim with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Shri Tenzing Gelek, IAS.

2. Sh. RavindraTelang shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Sikkim, which he may be holding before such assumption of office.

3. Sh. RavindraTelang while functioning as the Chief Electoral Officer, Sikkim shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Sikkim except that he should be designated Secretary to the Government in-charge of Election Department in the State Secretariat.

[No. 154/SK/2018-P. Admn.]

By Order,

B.C. PATRA, Secy.

## भारत निर्वाचन आयोग

### आदेश

नई दिल्ली, 7 मई, 2018

**आ. अ. 25.**—जबकि, भारत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2017 के लिए, जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा-दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

जबकि, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

## सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन क्षेत्र का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2017	120-भोजीपुरा	अनीस खां, ग्राम व पोस्ट तिलियापुर, बरेली, उत्तर प्रदेश।	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2017	120-भोजीपुरा	मुनेन्द्र कुमार, फरीदापुर जागीर, पोस्ट भोजीपुरा, बरेली, उत्तर प्रदेश।	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
3.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2017	124-बरेली	अकील अहमद खां, कांकर टोला, थाना बारादरी, बरेली, उत्तर प्रदेश।	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
4.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2017	389-वाराणसी दक्षिण	मु. मूसा अंसारी, बी.-18/52-जेड-5 बी-1 रफी नगर रेवड़ीतालाब, भेलूपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./2017]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, प्रधान सचिव

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

## ORDER

New Delhi, the 7<sup>th</sup> May, 2018

**O. N. 25.**—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the table below at the General Election to the Legislative Assembly, 2017 from the State of Uttar Pradesh as specified in column (2) held from the Constituency specified in column (3) against his/her name has failed to lodge the account of his/her election expenses as shown in column (5) of the said table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the rules made thereunder;

And, whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notices of the Election Commission or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/ Union Territory for a period of three years from the date of this order: -

TABLE

Sl. No.	Particular of Election	Sl. No. & Name of Constituency	Name & Address of Contesting Candidates	Reason of Disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2017.	120-Bhojipura	Anees Khan, Village & Post Tiliyapur, Bareilly, Uttar Pradesh.	Failed to lodge account of his/her election expenses.
2.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2017.	120-Bhojipura	Munendra Kumar, Faridhapur Jagir, P.O. Bhojipura, Bareilly, Uttar Pradesh.	Failed to lodge account of his/her election expenses.
3.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2017.	124-Bareilly	Aqeel Ahmad Khan, Kankar Tola, P.S. Baradari, Bareilly, Uttar Pradesh.	Failed to lodge account of his/her election expenses.
4.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2017.	389-Varanasi South	Mu. Musa Ansari, B-18/52 Z-5 B-1 Rafi Nagar Rewaritalab, Bhelupur, Varanasi, Uttar Pradesh.	Failed to lodge account of his/her election expenses.

[No. 76/UP-LA/2017]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Principal Secy.

**आदेश**

नई दिल्ली, 8 मई, 2018

**आ.ब. 26.**—यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि असम राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2016 में नीचे की सारणी में अपने नाम के सामने स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत यथाअपेक्षित उक्त सारणी के स्तंभ 5 में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है/रही है;

और यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक नोटिस दिए जाने के बावजूद उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन यदि कोई हो, पर विचार करने के उपरान्त निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त असफलता के लिए उनके पास कोई उपयुक्त या न्यायोचित कारण नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग नीचे की सारणी के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी सदन या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है:

**सारणी**

क्रम सं.	निर्वाचन का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हिता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	असम राज्य से विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2016	9-हैलाकंडी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	श्री अधीर चंदा, पुत्र स्व. श्री अंबिका प्रसाद चंदा, ग्राम एवं पोस्ट-पैकन, थाना एवं जिला-हैलाकंडी, असम, पिन-788151	निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असमर्थ रहे।

2.	असम राज्य से विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2016	9-हैलाकंडी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	श्री अली हुसैन मीरा, पुत्र अब्दुल हासिम मीरा वार्ड.सं.3. हैलाकंडी नगर, पी.ओ. आर.पी.रोड, हैलाकंडी जिला: हैलाकंडी, असम	निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असमर्थ रहे।
3.	असम राज्य से विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2016	9-हैलाकंडी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	श्री लुत्फुर रहमान लसकर पुत्र – अफताब उद्दीन लसकर ग्राम, बशदाहर-II पी.ओ. माटीजूरी, हैलाकंडी, असम	निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असमर्थ रहे।

[सं. 76/असम-वि.स./2016]

आदेश से,

नरेन्द्र नाथ बुटोलिया, प्रधान सचिव

**ORDER**New Delhi, the 8<sup>th</sup> May, 2018

**O.N. 26.**—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that each of the contesting candidates specified in column 4 of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly, 2016, in the Assam State held from the constituency specified in column 3 against his/her name has failed to lodge the account of his/her election expenses as shown in column 5 of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order:

**TABLE**

Sl. No.	Particulars of Election	No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address of Contesting Candidate	Reasons for Disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Election to the Legislative Assembly 2016 from the state of Assam.	9-Hailakandi Assembly Constituency	Shri Adhir Chanda, S/o Lt. Ambika Prasad Chanda, Vill & P.O. – Paikan, P..S & Distt.-Hailakandi, Assam , Pin-788151	Failed to lodge accounts of election expenses.
2.	General Election to the Legislative Assembly 2016 from the state of Assam.	9-Hailakandi Assembly Constituency	Shri Ali Hussain Mira, S/o Abdul Hasim Mira Ward No.3, Hailakandi Town, P.O.-R.P. Road, Hailakandi , Distt. Hailakandi Assam.	Failed to lodge accounts of election expenses.
3.	General Election to the Legislative Assembly 2016 from the state of Assam.	9-Hailakandi Assembly Constituency	Shri Lutfur Rahman Laskar, S/o – Aftab Uddin Laskar Vill – Bashdahar-II, P.O.- Matijuri, Hailakandi, Assam.	Failed to lodge accounts of election expenses.

[No.76/AS-LA/2016]

By Order,

NARENDRA NATH BUTOLIA, Principal Secy.